



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 19.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे वाछिंत/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक कुलपहाड़ श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम उ०नि० नवरोत्तम सिंह द्वारा मा० न्यायालय सि०ज०(जू०डि०) एफ०टी०सी०/महिला सं०अ० महोबा से सम्बन्धित परिवाद सं० 242/2021 केस नं० 52/2020 धारा 498ए/323 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट थाना अजनर से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त सुखलाल पुत्र भगवानदास उम्र करीब 59 वर्ष निवासी ग्राम सिरमौर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को ग्राम सिरमौर थाना कुलपहाड़ जिला महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार कर सक्षम माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सुखलाल पुत्र भगवानदास उम्र करीब 59 वर्ष निवासी ग्राम सिरमौर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० नवरोत्तम सिंह
- 2.म०कां० विशाखा यादव





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 19.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **19.11.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत आमजन से संवाद स्थापित कर कानून व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर **197** वाहनों के ई-चालान किये गये ।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 19.11.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस